



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 549]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 20, 2019/भाद्र 29, 1941

No. 549]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 20, 2019/BHADRA 29, 1941

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 सितम्बर, 2019

सा.का.नि. 672(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 320 के खंड (3) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) तीसरा संशोधन विनियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 की अनुसूची 2 में मद (2क) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

"2ख. वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के अधीन महानियंत्रक लेखा के कार्यालय में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-8 पर 47600-151100 रुपए में सहायक लेखा अधिकारी (समूह 'ख' राजपत्रित) के पद पर सीधी भर्ती।"

[फा. सं. 39018/02/2016-स्था.(ख)]

सुजाता चतुर्वेदी, अपर सचिव

टिप्पण : मूल विनियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 789, तारीख 13 सितम्बर, 1958 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित किए गए, अर्थात् :-

क्रम सं.	सा.का.नि. संख्या	तारीख
1.	1197	20 दिसंबर, 1958
2.	1451	10 दिसंबर, 1960
3.	731	03 जून, 1961
4.	1047	26 अगस्त, 1961
5.	382	31 मार्च, 1962
6.	1644	08 दिसंबर, 1962
7.	1689	15 दिसंबर, 1962
8.	578	06 अप्रैल, 1963
9.	1888	14 दिसंबर, 1963
10.	679	02 मई, 1964
11.	431	20 मार्च, 1965
12.	599	24 अप्रैल, 1965
13.	1672	20 नवंबर, 1965
14.	388	19 मार्च, 1966
15.	622	30 अप्रैल, 1966
16.	944	18 जून, 1966
17.	1433	21 जून, 1969
18.	633	18 अप्रैल, 1970
19.	879	06 जून, 1970
20.	1654	06 नवंबर, 1971
21.	168	24 फरवरी, 1973
22.	465(अ)	14 नवंबर, 1974
23.	594	17 मई, 1975
24.	2288	30 अगस्त, 1975
25.	1063	24 जुलाई, 1976
26.	610	14 मई, 1977
27.	740	02 जून, 1979
28.	441 (अ)- शुद्धिपत्र	14 जुलाई, 1979
29.	73	23 जनवरी, 1982
30.	480 - शुद्धिपत्र	29 मई, 1982
31.	481	29 मई, 1982
32.	329	06 अप्रैल, 1985

33.	479	18 मई, 1985
34.	512	01 जून, 1985
35.	918	05 अक्तूबर, 1985
36.	59	25 जनवरी, 1986
37.	268	12 अप्रैल, 1986
38.	1071	20 दिसंबर, 1986
39.	273	18 अप्रैल, 1987
40.	74	06 फरवरी, 1988
41.	590	23 जुलाई, 1988
42.	704	23 सितंबर, 1989
43.	37	20 जनवरी, 1990
44.	623	06 अक्तूबर, 1990
45.	666	30 नवंबर, 1991
46.	383(अ)	24 मई, 1999
47.	219	17 जुलाई, 1999
48.	88	17 फरवरी, 2001
49.	54	08 फरवरी, 2003
50.	232	14 जून, 2003
51.	405	22 नवंबर, 2003
52.	67	6 मार्च, 2004
53.	247	23 जुलाई, 2005
54.	349	08 अक्तूबर, 2005
55.	204(अ)	03 अप्रैल, 2006
56.	134	10 जून, 2006
57.	567(अ)	30 जुलाई, 2008
58.	297(अ)	30 अप्रैल, 2009
59.	544(अ)	22 जुलाई, 2009
60.	727(अ)	07 अक्तूबर, 2009
61.	12(अ)	06 जनवरी, 2010
62.	57(अ) शुद्धिपत्र	03 फरवरी, 2010
63.	788(अ)	29 सितंबर, 2010
64.	472(अ)	21 जून, 2011
65.	596(अ)	28 जुलाई, 2012

66.	620(अ)	11 सितंबर, 2013
67.	691(अ)	17 अक्तूबर, 2013
68.	773(अ)	11 दिसंबर, 2013
69.	11(अ)	10 जनवरी, 2014
70.	491(अ)	15 जून, 2015
71.	556(अ)	15 जुलाई, 2015
72.	655(अ)	25 अगस्त, 2015
73.	1002(अ)	22 दिसंबर, 2015
74.	199(अ)	27 फरवरी, 2016
75.	483(अ)	4 मई, 2016
76.	519(अ)	26 मई, 2017
77.	1239(अ)	27 दिसंबर, 2018
78.	38 (अ)	18 जनवरी, 2019
79.	472(अ)	4 जुलाई, 2019

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th September, 2019

G.S.R. 672(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to clause (3) of article 320 of the Constitution, the President hereby makes the following regulations further to amend the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1958, namely:-

1. **Short title and commencement.**- (1) These regulations may be called the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Third Amendment Regulations, 2019.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1958, in Schedule-II, after item (2A) and the entries relating thereto, the following item and entries shall be inserted, namely:-

“2B. Direct recruitment to the post of Assistant Accounts Officer (Group ‘B’, Gazetted) in level 8 in the pay matrix Rs.47600-151100 in the Office of the Controller General of Accounts under the Ministry of Finance, Department of Expenditure.”

[F. No. 39018/02/2016-Estt.(B)]

SUJATA CHATURVEDI, Addl. Secy.

Note : The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* notification number G.S.R. 789, dated the 13th September, 1958 and subsequently amended *vide* the following notifications, namely:-

S.No.	G.S.R. Number	Date
1.	1197	20 th December, 1958
2.	1451	10 th December, 1960
3.	731	03 rd June, 1961
4.	1047	26 th August, 1961
5.	382	31 st March, 1962
6.	1644	08 th December, 1962
7.	1689	15 th December, 1962
8.	578	06 th April, 1963
9.	1888	14 th December, 1963
10.	679	02 nd May, 1964
11.	431	20 th March, 1965
12.	599	24 th April, 1965
13.	1672	20 th November, 1965
14.	388	19 th March, 1966
15.	622	30 th April, 1966
16.	944	18 th June, 1966
17.	1433	21 st June, 1969
18.	633	18 th April, 1970
19.	879	06 th June, 1970
20.	1654	06 th November, 1971
21.	168	24 th February, 1973
22.	465(E)	14 th November, 1974
23.	594	17 th May, 1975
24.	2288	30 th August, 1975
25.	1063	24 th July, 1976
26.	610	14 th May, 1977
27.	740	02 nd June, 1979
28.	441(E)-Corrigendum	14 th July, 1979
29.	73	23 rd January, 1982
30.	480 - Corrigendum	29 th May, 1982
31.	481	29 th May, 1982
32.	329	06 th April, 1985
33.	479	18 th May, 1985
34.	512	01 st June, 1985
35.	918	05 th October, 1985
36.	59	25 th January, 1986

37.	268	12 th April, 1986
38.	1071	20 th December, 1986
39.	273	18 th April, 1987
40.	74	06 th February, 1988
41.	590	23 rd July, 1988
42.	704	23 rd September, 1989
43.	37	20 th January, 1990
44.	623	06 th October, 1990
45.	666	30 th November, 1991
46.	383 (E)	24 th May, 1999
47.	219	17 th July, 1999
48.	88	17 th February, 2001
49.	54	08 th February, 2003
50.	232	14 th June, 2003
51.	405	22 nd November, 2003
52.	67	6 th March, 2004
53.	247	23 rd July, 2005
54.	349	08 th October, 2005
55.	204(E)	03 rd April, 2006
56.	134	10 th June, 2006
57.	567(E)	30 th July, 2008
58.	297(E)	30 th April, 2009
59.	544(E)	22 nd July, 2009
60.	727(E)	7 th October, 2009
61.	12(E)	6 th January, 2010
62.	57(E) Corrigendum	3 rd February, 2010
63.	788(E)	29 th September, 2010
64.	472(E)	21 st June, 2011
65.	596(E)	28 th July, 2012
66.	620 (E)	11 th September, 2013
67.	691 (E)	17 th October, 2013
68.	773(E)	11 th December, 2013
69.	11 (E)	10 th January, 2014
70.	491(E)	15 th June, 2015
71.	556(E)	15 th July, 2015
72.	655(E)	25 th August, 2015
73.	1002(E)	22 nd December, 2015

74.	199(E)	27 th February, 2016
75.	483(E)	4 th May, 2016
76.	519(E)	26 th May, 2017
77.	1239(E)	27 th December, 2018
78.	38(E)	18 th January, 2019
79.	472(E)	04 th July, 2019